

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2018—चैत्र 10, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018 (चैत्र 10, 1940)

क्र. 7701-वि.स.-विधान-2018.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 31 मार्च 2018 सर्वसाधारण की जानकारी  
के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा,  
इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करती हूँ।

आनंदीबेन पटेल  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”.

भोपाल :  
दिनांक 31 मार्च, 2018

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.